



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1356]

नई दिल्ली, शक्रवार, मई 12, 2017/वैशाख 22, 1939

No. 1356]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 12, 2017/VAISAKHA 22, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2017

का. आ.1536(अ).—केंद्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में (i) का.आ. 1884(अ) तारीख 1 नवंबर, 2006, (ii) का.आ. 2229(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2007, (iii) का.आ. 1874(अ) तारीख 3 अगस्त, 2009, (iv) का.आ. 993 (अ) तारीख 30 अप्रैल, 2010, (v) का.आ. 2883(अ) तारीख 2 दिसंबर, 2010, (vi) का.आ. 1913(अ) तारीख 18 अगस्त, 2011, (vii) का.आ. 617(अ) तारीख 27 मार्च, 2012, (viii) का.आ. 1093(अ) तारीख 16 अप्रैल, 2014, (ix) का.आ. 2664(अ) तारीख 17 अक्टूबर, 2014, (x) का.आ. 205(अ) तारीख 21 जनवरी, 2015, (xi) का.आ. 1796(अ) तारीख 2 जुलाई, 2015, (xii) का.आ. 1444(अ) तारीख 19 अप्रैल, 2016 और (ii) का.आ. 2394(अ) तारीख 13 जुलाई, 2016, द्वारा प्रकाशित अधिसूचनाओं को सिवाय उन बातों के, जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित किस्मों (विस्तार किस्मों और कृषक किस्मों से भिन्न) को रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र फसल की प्रजातियां	साधारण नाम	हिन्दी/स्थानीय नाम
1.	ओरीजा सटीवा एल.	राइस	चावल
2.	ट्राइटिकम एस्टीवम एल.	ब्रेड व्हीट	गेहूँ
3.	जी मेस एल.	मेज	मक्का

4.	सोरघम बाई कलर (एल.) माएन्क	सोरघम	ज्वार
5.	पैनिन्सेटम ग्लाकम (एल.) आर. वी आर.	पर्ल मिलेट	बाजरा
6.	साइसर एरीटीनम एल.	चिकपी	चना
7.	कजानुस कजान (एल.) मिलस्प	पिजन पी	टरहर
8.	विग्ना रेडियेट (एल.) विल्कजेक	ग्रीन ग्राम	मूंग
9.	विग्ना मुन्नो (एल.) हैपर	ब्लैकग्राम	उरद
10.	लैन्स कुलीनारिस मेडिक	लेटिल	मसूर
11.	पाइसम सेडिबम एल.	फील्ड पी	मटर
12.	फासेलस वलगारिस एल.	किडनी बीन	राजमा
13.	गोसिपियम हिरसुटम एल. जी. बारबाडेन्स एल. गोसिपियम आरबोरियम एल. जी. हरबेसियम एल.	काटन	कपास
14.	कोरकोरस औलीटोरियस एल. कोरकोरस केपसूलेरिस एल.	जूट	पटसन
15.	सैकैरम एल.	सुगरकेन	गन्ना
16.	जिंजिबर आफिसिनेल रोसा	जिंजर	अदरक
17.	कुरुमा लोंगा एल.	टरमैरिक	हल्दी
18.	पाइपर नाइग्रम एल.	ब्लैक पेपर	काली मिर्च
19.	इलेटेरिया कार्डमोमम मेटन	स्माल कार्डमम	छोटी इलायची
20.	ब्रासिका जुंसीआ एल. जर्न एंड सॉस ब्रासिका करिनेटा ए ब्राउन	इंडियन मस्टर्ड	सरसों करन राई
21.	ब्रासिका रापा एल. ब्रासिका नेपस एल.	रैपसीड	तोरिया गोभी सरसों
22.	हेलिएंथस एनस एल.	सनपलॉवर	सूर्यमुखी
23.	केर्थमस टिकटोरियस एल.	सेपलॉवर	कुसुम
24.	रिसिनस कम्युनिस एल.	कैस्टर	अरंडी
25.	सेसमम इंडिकम एल.	सेसमि	तिल
26.	लिनम युसिटेटीसिमम एल.	लिनसीड	अलसी
27.	अराकिस हाइपोजिआ एल.	ग्राउंड नट	मूंगफली
28.	ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मेरिल	सोयबीन	सोयबीन
29.	सोलेनम ट्यूबरोसम एल.	पोटैटो	आलू
30.	ऐलियम सेटिवम एल.	गारलिक	लहसुन

31.	ऐलियम सेपा एल.	ऑनियन	प्याज
32.	लाइकोपर्सिकान लाइकोपर्सिकम (एल.) कारस्टेन एक्स. फार्व.	टोमैटो	टमाटर
33.	सोलेनम मेलोन्जेना एल.	ब्रिंजल	बैंगन
34.	ब्रासिका ओलिरिसिया एल. वैर. कैपिटेटा	कैबेज	पत्तागोभी / बंदगोभी
35.	ब्रासिका ओलिरिसिया एल. वेर. बोट्राईटिस	कालीपलावर	फूलगोभी
36.	एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस (एल.) मोंच	लेडीज फिंगर	भिन्डी
37.	रोजा स्पिशीज (आर. डेमेसेना से भिन्न)	रोज़	गुलाब
38.	मैंगीफेरा इंडिका एल.	मैंगो	आम
39.	क्राइसेन्थिमम	क्राइसेन्थिमम	गुलदाउदी
40.	ट्रिटिकम डूरम डेस्फ	व्हीट	गेहूँ
41.	ट्रिटिकम डिकोक्कम एल.		
42.	ट्रिटिकम प्रजातियां (ट्रिटिकम ऐस्टिवम एल., ट्रिटिकम डूरम डेस्फ. और ट्रिटिकम डिकोक्कम एल. से भिन्न)		
43.	कोकोस नूसीफेरा एल.	कोकोनट	नारियल
44.	केथरेन्थस रोसियस एल., जी डॉन.	पेरीविकल	सदाबहार
45.	बकोपा मान्नियरी, एल. पेन्नेल	इंडियन पेन्नीवर्ट	ब्राह्मी
46.	रोजा डेमेसिना मिल	रोज़	गुलाब
47.	प्लांटैगो ओवाटा फोर्स्क	ब्लॉड सिलियम	ईसबगोल
48.	मैथा अरवेसिस एल.	मैथॉल मिट	पुदीना
49.	साइमबिडम एसडब्ल्यू.	बैबू लीफ आर्किड या बोट आर्किड	साइमबिडम
50.	डैन्ड्रोबियम एसडब्ल्यू	स्प्रे. आर्किड या सिंगापुर आर्किड	जीवंती
51.	वेंडा जोन्स एक्स आर. बी. आर.	वेंडा या ब्लू आर्किड	रसना
52.	पुनिका ग्रान्टम एल.	पोमग्रेनेट	अनार
53.	केटेल्या लिंडएल	आर्चिड	आर्चिड
54.	फलेनोप्सिस ब्लूम	आर्चिड	मोथ आर्चिड
55.	यूकेलिप्टस कमलडुलेनसिस डेहन्ड एंड यूकेलिप्टस टेरिटिकोर्निस एसएम.	यूकेलिप्टस	सफेदा
56.	केसुआरिना इक्वुसेटीफोलिया एल. एंड केसुआरिना जंगहुनियाना मिक्.	केसुरिना	जंगली सरु
57.	मोमोरडिका करान्टिया एल.	बिटर गोर्ड	करेला
58.	लगेनारिया सिसेरारिया (मोल.) स्टैडएल.	वोटल गोर्ड	लोकी (धिया)
59.	कुकुमिस सेटिवस एल.	कुकुम्बर	खीरा
60.	कुकुरबिटा मोस्वाटा डच. एक् पोयर	पम्पकिन	कद्दू

61.	होर्डम वल्गोरे एल.	बार्ले	जौ
62.	कोरिएन्ड्रम सेटिवम एल.	कोरिएन्डर	धनिया
63.	ट्रिगोनेला फोइनम ग्रेसम एल.	फेनूग्रीक	मेथी
64.	प्रूनस डल्लिसस (मिल) डि.ए. वेब	अल्मंड	बादाम
65.	मेलिस डोमेस्टिका बोरक	एप्पल	सेब
66.	पायरस कम्युनिस एल.	पियर	नाशपाती
67.	प्रूनस अर्मेनिका एल.	एप्रीकोट	खुबानी
68.	प्रूनस अबियम एल.	चेरी	चेरी
69.	जुगलैस रेजिया एल.	वालनट	अखरोट
70.	विटिस सब	ग्रेप्स	अंगूर
71.	जिजिफस मोरिटियाना लाम्क	इंडियन जुजूबे (बेर)	बेर
72.	केमेलिया सीनेंसिस, केमेलिया असामिका और सी. असामिका एसएसपी लैसियाकैलिकस	टी	चाय
73.	<i>साइट्रस ओरेंटीफोलिया स्वींगल</i>	एसिड लाइम	नींबू
74.	<i>साइट्रस रेटिकुलाटा ब्लैको</i>	मेंडारिन	संतरा
75.	<i>साइट्रस सीनेंसिस (एल.) ओसबेक</i>	स्वीट ओरेंज	मौसमी
76.	बोगनविलिया सीओएमएम. एक्स जस.	बोगनविलिया	बोगनविलिया
77.	<i>मुसा एसपीपी.</i>	बनाना	केला
78.	ऑंसीडियम एसडब्ल्यू.	ओर्चिड	ओर्चिड
79.	कैना एल.	कैना	केली
80.	ग्लेडिओलुस	ग्लेडिओलुस	ग्लेडिओलुस
81.	कुकुमिस मेलो एल.	मस्कमेलन	खरबूजा
82.	सिटरुलुस लानतुस (थुंब.) मनसफ	वाटरमेलन	तरबूज
83.	जैसमिनम ऑरिकुलेटम एल.	जैसमिन	चमेली
84.	पोलीएंथस ट्यूबरोजा एल.	ट्यूबरोज	रजनीगंधा
85.	कैरिका पपाया एल.	पपाया	पपीता
86.	कैलिस्टफस चाइनेंसिस (एल.) नीस.	चाइना एस्टर	चाइना एस्टर
87.	प्रूनस पर्सिका एल. बाट्स्च	पीच	आड़ू
88.	प्रूनस सैलिसिना एल.	जापानीज प्लम	जापानी आलूबुखारा
89.	फ्रेगरिया एक्स अनानसन डच.	स्ट्रॉबेरी	स्ट्रॉबेरी
90.	कैप्सिकम एनम एल.	चिल्ली, बेल पेपर और पैपरिका	मिर्च, शिमला मिर्च और पैपरिका
91.	एल्यूसीन कोराकाना (एल.) गेइरटन	फिंगर मिल्लैट	रागी
92.	सेटेरिया इटालिका (एल.) बियूव	फाक्सटेल मिल्लैट	कंगनी

93.	एमरेथस ट्राईकलर एल.	वेजीटेबल एमरेथ	सब्जी चौलाई
94.	लूफा एक्यूटेगुला (एल.) रॉक्सब.	राईज गोर्ड	तोरई
95.	बीटा वल्गेरिस वर. बेंगालेन्सिस रॉक्सब	स्पिनच	पालक
96.	डाइएँथस कैरियोफिलस एल.	कारने'न	गुलनार
97.	पैफिओपेडिलम फिफ्ट्स.	ऑर्किड	ऑर्किड
98.	मोरिंडा सिट्रिफोलिया एल.	इंडियन मल्बरी	नोनी
99.	एग्ले मार्मेलॉस (एल.) कोरी	बेल	बेल
100.	सिंजीगियम क्यूमिनी (एल.) स्कील्स.	ब्लैक प्लम	जामुन
101.	माइरिस्टिका फ्रैगरेस हाउट.	नटमैग	जायफल
102.	जैस्मिनम सैम्बक एल.	अरैबियन जैसमीन	मोगरा
103.	एन्नोना स्क्वैमोसा एल.	कस्टर्ड एप्पल	सीताफल
104.	एंड्रोग्राफिस पैनीकुलेटा (बर्म.एफ.) वाल. एक्स. नीस	किंग आफ बिटर्स	कालमेघ
105.	पोंगेमिया पिन्नाटा (एल.) पिएरे	करंज	करंज
106.	एजाडिरेक्टा इंडिका ए. जस.	नीम	नीम
107.	एम्बलिका ओफिसिनेलिस गोर्डर्न	इंडियन गूजबेरी	आंवला / आमला
108.	सिडियम गुआजावा एल.	ग्वावा	अमरूद
109.	लीची चाइनेसिस सोन.	लीची	लीची
110.	टैगेटस प्रजातियां एल.	मैरीगोल्ड	गेंदा
111.	पाइपर बीटल एल.	बेटलवाईन	पान
112.	सेड्रस डियोडारा (रॉक्सब) जी. डॉन	देवदार	देवदार
113.	(पाइनस रॉक्सबर्घी) सारजेंट	चीड़ पाइन	चीड़
114.	मोरस प्रजातियां	मलबरी	शहतूत
115.	जैस्मीनम मल्टीफ्लोरम एल.	जैस्मीन	चमेली
116.	फैगोपाइरम एस्क्यूलेटम	कॉमन / स्विट बकव्हिट	कुट्ट
117.	फैगोपाइरम टैटारिकम	टरटेरी / बिटर बकव्हिट	फाफर
118.	एमरेथस हाइपोकॉन्ड्रीकस,	राजगीरा (दा किंगस ग्रेन)	चौलाई
119.	एमरेथस क्रूएँन्टस	ऑर रामदाना (लार्ड रामाज़ ग्रेन)	
120.	एमरेथस कॉडेटस		
121.	एमरेथस एडयूलिस		
122.	विसिया फाबा एल.	फाबा बीन	बाकला
123.	जैट्रोफा कुर्कस एल.	जैट्रोफा	जैट्रोफा
124.	पैनिकुम माइलियासियम एल.	प्रोसो मिलेट	बरी
125.	इचिनिकोला फ्रमेन्टेसिये (रॉक्सब.) लिंक	बार्नयार्ड मिलेट	झंगोरा

126.	पेनीकुम सुमेट्रेन्थ रोथ. एक्स. रौमर और स्कूलेट्स	लिटिल मिलेट	कुटकी
127.	पैसपेलम स्कॉर्बिकुलेटम एल.	कोडो मिलेट	कोडरा
128.	एमोरफोफेलस पियानीफोलियस	ऐलिफेंट फुट यम	जिमीकंद
129.	कोलोकेसिया एस्कुरेला	टारो	अरबी
130.	काइटोस्पर्मा चेमिसोनिस्/सी. मेरकुसी	जांयट स्वैम्प टारो	भीमकर अरबी

[फा. सं. 2-9/2008-एसडी.वी]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12<sup>th</sup> May, 2017

**S.O. 1536(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 29 read with section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3 sub-section (ii) vide (i) S.O. 1884 (E), dated the 1<sup>st</sup> November, 2006, (ii) S.O. 2229(E), dated the 31<sup>st</sup> December, 2007, (iii) S.O. 1874 (E), dated the 3<sup>rd</sup> August, 2009, (iv) S.O. 993 (E), dated the 30<sup>th</sup> April, 2010, (v) S.O. 2883(E) dated the 2<sup>nd</sup> December, 2010, (vi) S.O. 1913(E), dated the 18<sup>th</sup> August, 2011, (vii) S.O.617(E), dated the 27<sup>th</sup> March, 2012, (viii) S.O. 1093(E), dated the 16<sup>th</sup> April, 2014, (ix) S.O. 2664(E), dated the 17<sup>th</sup> October, 2014, (x) S.O. 205(E), dated the 21<sup>st</sup> January, 2015, (xi) S.O. 1796 (E), dated the 2<sup>nd</sup> July, 2015, (xii) S.O. 1444(E), dated the 19<sup>th</sup> April, 2016 and (xiii) S.O. 2394 (E), dated the 13<sup>th</sup> July, 2016 except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby specifies the following species for the purposes of registration of varieties (other than extant varieties and farmers' varieties) under the said Act, namely:—

Serial Number	Crop species eligible for registration	Common name in English	Common name in Hindi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Oryza sativa</i> L.	Rice	Chawal
2.	<i>Triticum aestivum</i> L.	Bread wheat	Gehun
3.	<i>Zea mays</i> L.	Maize	Makka
4.	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench	Sorghum	Jowar
5.	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R.Br.	Pearl millet	Bajra
6.	<i>Cicer arietinum</i> L.	Chickpea	Chana
7.	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	Pigeon pea	Arhar
8.	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek	Green Gram	Mung

9.	<i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper	Black Gram	Urd
10.	<i>Lens culinaris</i> Medik	Lentil	Masur
11.	<i>Pisum sativum</i> L.	Field pea	Matar
12.	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Kidney bean	Rajmah
13.	<i>Gossypium hirsutum</i> L. <i>G. barbadense</i> L. <i>Gossypium arboreum</i> L. <i>G. herbaceum</i> L.	Cotton	Kapas
14.	<i>Corchorus olitorius</i> L. <i>Corchorus capsularis</i> L.	Jute	Patsen
15.	<i>Saccharum</i> L.	Sugarcane	Ganna
16.	<i>Zingiber officinale</i> Rosc.	Ginger	Adrak
17.	<i>Curcuma longa</i> L.	Turmeric	Haldi
18.	<i>Piper nigrum</i> L.	Black pepper	Kali Mirch
19.	<i>Elettaria cardamomom</i> Maton	Small Cardamom	Choti Elaichi
20.	<i>Brassica juncea</i> L. Czern & Coss <i>Brassica carinata</i> A Braun	Indian mustard	Sarso Karan Rai
21.	<i>Brassica rapa</i> L. <i>Brassica napus</i> L.	Rapeseed	Toria Gobhi sarson
22.	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sunflower	Surya Mukhi
23.	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Safflower	Kusumbha
24.	<i>Ricinus communis</i> L.	Castor	Arandi
25.	<i>Sesamum indicum</i> L.	Sesame	Til
26.	<i>Linum usitatissimum</i> L.	Linseed	Alsi
27.	<i>Arachis hypogaea</i> L.	Groundnut	Moongphali
28.	<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Soybean	Soybean
29.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Potato	Alu/Aloo
30.	<i>Allium sativum</i> L.	Garlic	Lahsun
31.	<i>Allium cepa</i> L.	Onion	Pyaz
32.	<i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex. Farw.	Tomato	Tamatar
33.	<i>Solanum melongena</i> L.	Brinjal	Baigan
34.	<i>Brassica oleracea</i> L.var capitata	Cabbage	Pattagobhi/Bandgobhi
35.	<i>Brassica oleracea</i> L.var. botrytis	Cauliflower	Phoolgobhi
36.	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.	Lady's Finger	Bhindi
37.	<i>Rosa</i> spp.(other than <i>R.damascena</i> )	Rose	Gulab
38.	<i>Mangifera indica</i> L.	Mango	Aam
39.	<i>Chrysanthemum</i>	<i>Chrysanthemum</i>	Guldaudi
40.	<i>Triticum durum</i> Desf.	wheat	Gehun

41.	<i>Triticum dicoccum</i> L.	wheat	Gehun
42.	<i>Triticum</i> species (other than <i>Triticum aestivum</i> L., <i>Triticum durum</i> Desf and <i>Triticum dicoccum</i> L.)	wheat	Gehun
43.	<i>Cocos nucifera</i> L.	Coconut	Nariyal
44.	<i>Catharanthus roseus</i> L., G. Don	Periwinkle	Sadabahar
45.	<i>Bacopa monnieri</i> L. Pennell	Indian pennywort	Brahmi
46.	<i>Rosa damascena</i> Mill	Damask Rose	Gulab
47.	<i>Plantago ovata</i> Forsk	Blond Psyllium	Isabgol
48.	<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthol Mint	Pudina
49.	<i>Cymbidium</i> Sw.	Bamboo Leaf Orchid or Boat Orchid	Cymbidium
50.	<i>Dandrobium</i> Sw.	Spray Orchids or Singapore Orchid	Jeevanti
51.	<i>Vanda Jones</i> ex R. Br.	Vanda or Blue Orchids	Rasna
52.	<i>Punica granatum</i> L	Pomegranate	Anar
53.	<i>Cattleya</i> Lindl.	Orchid	Orchid
54.	<i>Phalaenopsis</i> Blume	Orchid	Moth Orchid
55.	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. and <i>Eucalyptus tereticornis</i> Sm.	Eucalyptus	Safeda
56.	<i>Casuarina equisetifolia</i> L and <i>Casuarina junghuhniana</i> Miq.	Casurina	Jungli Saru
57.	<i>Momordica charantia</i> L.	Bitter Gourd	Karela
58.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	Bottle Gourd	Lauki (Gheeya)
59.	<i>Cucumis sativus</i> L.	Cucumber	Kheera
60.	<i>Cucurbita moschata</i> Duch. ex Poir.	Pumpkin	Kaddu
61.	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Barley	Jau
62.	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Coriander	Dhaniya
63.	<i>Trigonella foenum graecum</i> L.	Fenugreek	Methi
64.	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Almond	Badam
65.	<i>Malus domestica</i> Borkh	Apple	Sabe
66.	<i>Pyrus communis</i> L.	Pear	Nashpaati
67.	<i>Prunus armeniaca</i> L.	Apricot	Khubani
68.	<i>Prunus avium</i> L.	Cherry	Cherry
69.	<i>Juglans regia</i> L.	Walnut	Akharot
70.	<i>Vitis</i> spp.	Grapes	Angur
71.	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lamk.	Indian jujube (Ber)	Ber



72.	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Camellia assamica</i> and <i>C.assamica</i> ssp <i>lasiocalyx</i> .	Tea	Chai
73.	<i>Citrus aurantifolia</i> Swingle	Acid Lime	Nimbu
74.	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Mandarin	Santra
75.	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Sweet Orange	Mausami
76.	<i>Bougainvillea</i> Comm. Ex Juss.	<i>Bougainvillea</i>	<i>Bougainvillea</i>
77.	<i>Musa</i> spp.	Banana	Kela
78.	<i>Oncidium</i> Sw.	Orchid	Orchid
79.	<i>Canna</i> L.	<i>Canna</i>	Keli
80.	<i>Gladiolus</i> L.	<i>Gladiolus</i>	<i>Gladiolus</i>
81.	<i>Cucumis melo</i> L.	Muskmelon	kharbuja
82.	<i>Citrullus Lanatus</i> (Thunb.)Mansf.	Watermelon	Tarbuji
83.	<i>Jasminum auriculatum</i> . L.	Jasmine	Chameli
84.	<i>Polianthes tuberosa</i> L.	Tuberose	rajnigandha
85.	<i>Carica papaya</i> L.	Papaya	Papita
86.	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees.	China Aster	China Aster
87.	<i>Prunus persica</i> L.Batsch.	Peach	Aadu
88.	<i>Prunus salicina</i> L.	Japanese Plum	Japani Aalubhukhara
89.	<i>Fragaria x ananasan</i> Duch.	Strawberry	Strawberry
90.	<i>Capsicum annum</i> L.	Chilli, Bell Pepper and Paprika	Mirch, Shimla Mirch and Paprika
91.	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.	Finger Millet	Ragi
92.	<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv	Foxtail Millet	Kangani
93.	<i>Amaranthus tricolor</i> L.	Vegetable Amaranth	Sabji Chauli
94.	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.	Ridge gourd	Torai
95.	<i>Beta vulgaris</i> var.bengalensis Roxb.	Spinach beet	Palak
96.	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Carnation	Gulnar
97.	<i>Paphiopedilum</i> Pfitz.	Orchid	Orchid
98.	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Indian Mulberry	Noni
99.	<i>Aegle marmelos</i> (L.) correa	Bael	Bel
100.	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Black plum	Jamun
101.	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Nutmeg	Jaiphal
102.	<i>Jasminum sambac</i> L.	Arabian Jasmine	Mogra
103.	<i>Annona squamosa</i> L.	Custard Apple	Sitaphal
104.	<i>Andrographis paniculata</i> (Burm.f) Wall. Ex. Nees	King of Bitters	Kalmegh
105.	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierre.	Karanj	Karanj
106.	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.	Neem	Neem
107.	<i>Emblica officinalis</i> Gaertn.	Indian Gooseberry	Awla/Amla
108.	<i>Psidium guajava</i> L.	Guava	Amrud

109.	Litchi chinensis Sonn.	Litchi	Litchi
110.	Tagetesspp. L.	Marigold	Genda
111.	Piper betle L.	Betelvine	Paan
112.	Cedrus deodara (Roxb.) G.Don	Deodar	Devdar
113.	Pinus roxburghii Sargent	Chir Pine	Chir
114.	Morus spp.	Mulberry	Shahtoot
115.	Jasminum multiflorum L.	Jasmine	Chameli
116.	Fagopyrum esculentum	Common/ Sweet Buckwheat	Kuttu
117.	Fagopyrum tataricum	Tartary/ Bitter Buckwheat	Phaphar
118.	Amaranthus hypocondricus	Rajgeera (the King's grain) or Ramdana (Lord Rama's grain).	Cholai
119.	Amaranthus cruentus		
120.	Amaranthus caudatus		
121.	Amaranthus edulis		
122.	Vicia faba L.	Faba bean	Faba Bean
123.	Jatropha curcas L.	Jatropha	Jatropha
124.	Panicum maliaceum L.	Proso Millet	Barri
125.	Echinochloa frumentaceae (Roxb.) Link	Barnyard Millet	Jhangora
126.	Panicum sumatrense Roth. Ex. Roemer And Schultes	Little Millet	Kutki
127.	Paspalum scorbiculatum L.	Kodo Millet	Kodra
128.	Amorphophallus paeoniifolius	Elephant Foot Yam	Jimikand
129.	Colocasia esculenta	Taro	Arbi
130.	Cyrtosperma chamissionis/C.merkusii	Giant SwampTaro	Bhimakar Arbi

[F. No. 2-9/2008-SD.V]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.